

# प्रेस नोट

26.06.2021

**अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोडए चोरी की 04 मोटरसाइकिल के साथ 06 शातिर**

**चोर गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 25.06.2021 को रात्रि में थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली की दुबारी की तरफ से चोरी की 04 मोटर साइकिल के साथ कुछ व्यक्ति मधुबन की तरफ आ रहे हैं जो मोटरसाइकिलों को कही बेचने के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास कर मधुबन पुलिस द्वारा ताल रतोय जाने वाली दुबारी रोड पर घेरा बन्दी कर आने वाले मोटरसाइकिलों का इन्तजार किया गया। कुछ देर बार दुबारी की तरफ से चार मोटर साइकिलों पर सवार होकर कुछ लोग तेज रफ्तार से आते हुए दिखाई दियेए जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो एकाएक ब्रेक मारकर पीछे मोडकर भागने की कोशिश करने लगेए पुलिस द्वारा घेराबन्दी कर 06 लोगों को पकड़ा गया जबकि एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठा कर कविराजपुर नदी की तरफ भाग गया।

उक्त पकड़े गये लोगों से जब पूछताछ की गयी तो सभी ने बताया कि साहब हमारे पास चोरी की मोटरसाइकिले है जो बेचने के लिए हम सब लेकर जा रहे थे। हम लोगों द्वारा भीड भाड वाली जगहए बैक के आस पास से मोटरसाइकिले चुरा ली जाती थी जिसको नम्बर प्लेट बदल कर देवारा में सुनसान जगह पर छुपा देते थे और मौका देखकर रात में बिहार राज्य में जाकर कम दाम पर ग्राहको को बेच देते थे। जब पकड़े गये व्यक्तियो से नाम पूछा गया तो उनका नाम क्रमशः अमन सिंह सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी कमरौली थाना मधुबनए सागर चैहान पुत्र रामसूरत चैहान निवासी जुआ थाना तरवा जनपद आजमगढ़ए गणेश पुत्र रमाशंकर निवासी कन्धेरी थाना घोसीए हरेन्द्र चैहान पुत्र भीरु चैहान निवासी रेखडा थाना रसड़ा जनपद बलियाए शिवजी राजभर पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी चन्दायर थाना मनियर जनपद बलियाए अलीहसन पुत्र मो0 वकील निवासी कटघराशंकर थाना मधुबन जनपद मऊ बताया गया।

जब और कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा

1. दिनांक 26.05.2021 को यूनियन बैंक मधुबन के सामने से सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल जिसका नम्बर यूपी 54 डब्ल्यू 1816 था चुराया गया था जिसपर हम लोगों ने नम्बर प्लेट यूपी 60 एजे 2861 का लगा दिये हैं।
  2. दिनांक 26.05.2021 को कस्बा मधुबन से सुपर स्प्लेण्डर यूपी 54 जेड 5606 चोरी किये थे जिसपर यूपी 54 जेड 6606 का नम्बर प्लेट लगा दिये थे।
  3. लगभग एक सप्ताह पूर्व देवलासपुर के पास गांव रामपुर काधी से पल्सर मोटरसाइकिल यूपी 54 पी 4793 चोरी किये थे जिसपर यूपी 62 पी 2237 का नम्बर प्लेट लगा दिये थे।
  4. कुछ दिन पूर्व तरवा आजमगढ़ से मोटरसाइकिल पैशन प्रो चोरी किये थे जिसका सही नम्बर याद नहीं है जिसपर यूपी 54 एल 5251 का नम्बर प्लेट लगा दिये थे।
- इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/21 धारा 41,411,419,420 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. अमन सिंह सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी कमरौली थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. सागर चौहान पुत्र रामसूरत चौहान निवासी जुआ थाना तरवा जनपद आजमगढ़।
3. गणेश पुत्र रमाशंकर निवासी कन्धेरी थाना घोसी जनपद मऊ
4. हरेन्द्र चौहान पुत्र भीरु चौहान निवासी रेखडा थाना रसड़ा जनपद बलिया।
5. शिवजी राजभर पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी चन्दायर थाना मनियर जनपद बलिया।
6. अलीहसन पुत्र मो0 वकील निवासी कटघराशंकर थाना मधुबन जनपद मऊ।

#### **बरामदगी-**

चार मोटरसाइकिल वाहन (02 सूपर स्प्लेण्डरए 01 पैशन प्रोए 01 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल)

#### **गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

निरीक्षक विमल प्रकाश राय प्रभारी निरीक्षक थाना मधुबनए उ0नि0 रामसकल यादवए उ0नि0 गंगाराम बिन्दए आ0 अविनाश धर दुबेए आ0 रविकान्तए आ0 सन्देश मौर्याए आ0 चन्दन कुमारए आ0 सुरेश राजभरए आ0चा0 मोहन सिंह (थाना मधुबन)।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 26.06.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कासिम पोखरी के पास से मु0अ0सं0 208/21 धारा 379,411 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अब्दुल कलाम पुत्र मूमताज निवासी अलीनगर थाना कोतवाली, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा करहा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 344/21 धारा 354क भादवि0 व 7/8 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त वृजेश पुत्र स्व0 शंकर लाल, सूरज पुत्र रामकृत निवासीगण मालोपीटोखर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा बढुआ गोदाम के पास से मु0अ0सं0 179/21 धारा 363,366,376,406,506 भादवि0 व 3/4 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त पप्पन उर्फ पप्पू पुत्र मिठाई लाल निवासी ओन्हाइच थाना सरायलखंसी जनपद मऊ का गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

### **शांति भंग की आशंका में 17 व्यक्ति गिरफ्तार—**

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा फैयाज अहमद, आफताब अहमद, शाहिद निवासीगण बैजापुर थाना दक्षिणटोला, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा प्रमोद राजभर, रामकृपाल, राजू सिंह निवासीगण हेमई थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा गोरखनाथ, रामकेवल निवासीगण गुलौरी, विमलेश निवासी डोलवन, धर्मवीर, रामअनुज निवासीगण परदहा थाना कोतवाली, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा विजय शंकर, रामप्रवेश निवासीगण चौबेपुर थाना कोपागंज, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मो0 महमूद, संतोष यादव निवासीगण नगरीपार, रामू, जयसू निवासीगण सुतरही थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।